



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 1981/माघ 10, 1902
No. 30] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 1981/MAGHA 10, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1981

सा.का.नि. 37 (अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य निगम अधिनियम, 1964
(1964 का 37) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित
उप-धारा (2) और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 4 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (खाद्य
विभाग) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 688(अ), तारीख 8 दिसम्बर,
1980 के क्रम में, श्री बी. एस. राघवन, आई. ए. एस., की खाद्य विभाग में
अपर सचिव के रूप में अपने सामान्य कार्यों के अलावा भारतीय खाद्य निगम के

प्रबन्ध निदेश के कार्य का अतिरिक्त भार सम्भालने सम्बन्धी नियुक्ति की अवधि को 28 दिसम्बर, 1980 से 11 जनवरी, 1981 तक की 15 दिन की और अवधि के लिए एतद्वारा बढ़ाती है जबकि श्री के. वी. शेषाद्वि, आई. ए. एस., की 28 दिसम्बर, 1980 से 9 जनवरी, 1981 तक छुट्टी की अवधि बढ़ा दी गई है और उक्त छुट्टी के बाब में 10 तथा 11 जनवरी, 1981 की छुट्टियों को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की गई है।

[फा. सं. 5-6/80-एफा. सी. 1]

के. सी. एस. आचार्य, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 1981

G.S.R. 37(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) read with clause (d) of sub-section (1) of section 7 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and rule 4 of the Food Corporations Rules, 1965, and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 685(E), dated the 8th December, 1980, the Central Government hereby extend the appointment of Shri B. S. Raghavan, IAS, to hold charge of the office of the Managing Director of the Food Corporation of India, in addition to his normal duties as Additional Secretary in the Department of Food, for a further period of 15 days with effect from the 28th December, 1980 to the 11th January, 1981 vice Shri K. V. Seshad I.A.S., granted extension of leave with effect from the 28th December, 1980 to the 9th January, 1981 with permission to suffix the holidays on the 10th and 11th January, 1981 to the said leave.

[F. No. 5-6/80-FC-1]

K. C. S. ACHARYA, Jt. Secy.